

APPLICATION FORM FOR ASSISTANCE सहायता हेतु आवेदन प्रारूप		(Healthcare) (स्वास्थ्य देखभाल)	Koshika foundation Building block of life.	
APPLICATION No.: आवेदन संख्या:	B/0524/0313	APPLICATION DATE आवेदन तिथि:	10/5/24	
NAME of APPLICANT: आवेदक का नाम:	Nagareddy U	AGE-YEARS आयु-वर्ष:	61	
FATHER'S/SPOUSE'S NAME: पिता/जीवित पति का नाम:	S/o Karmamothaiyal.	SEX लिंग:	m	
PRESENT RESIDENCE ADDRESS: वर्तमान स्थायी पता:		#1, Bongachara Nagar Nagamangala, Taluk Mandya, Karnataka		
PERMANENT RESIDENCE ADDRESS: स्थाई स्थायी पता:		<u>II</u>		
OCCUPATION: अवस्था:	Unemployed			
TOTAL ANNUAL INCOME: कुल वार्षिक आय:	(Attach Proof of Income) (आय का साथ संलग्न)			
PAN No. स्थाई ग्राहक संख्या:				
ARE YOU AN INCOME TAX ASSESSSEE (Tick whichever is applicable): यदि आप आय कर रहे हैं (जो मान्य हो उम्म पर माही का निश्चय लगाये):		Yes / No <input checked="" type="checkbox"/> हाँ / नहीं		
FAMILY DETAILS परिवार विवरण				
Sr. No. क्रम संख्या	Name of Family Member परिवार के सदस्यों का नाम	Age (Years) उम्र (वर्ष)	Gender लिंग	Relation with Applicant आवेदक के साथ घब्बा
①	Udayamma	36y	F	Mother
②	Rajeshwari	20y	m	Son
③	Roopika	14y	F	Daughter
④	Manyunath	12y	m	Son
BASIS for REQUESTING ASSISTANCE (Tick whichever is applicable) सहायता के लिए विनियोग का उद्देश्य:				
BPL Card (Attach Card Copy) गरीबी रेखा के नीचे प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र की ओर प्रति संलग्न करें)	EWS Certificate (Attach Certificate Copy) जन्म वार्ष की प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र की ओर प्रति संलग्न करें)	Ration Card (Attach Copy) उपभोक्ता बट्टा (प्रमाण पत्र की ओर प्रति संलग्न करें)	Any Other Basis/Proof अन्य कोई सब्द	
"PURPOSE" for REQUESTING ASSISTANCE: सहायता हेतु किसे गरी विनियोग का उद्देश्य:				
Sr. No. क्रम संख्या	Medical Reports/Prescriptions Attached अस्पताल/दॉक्टर से जारी की गई डिलिवरेन सूची संलग्न			
①	Diagnosis Percataract LSC contract Nagareddy :- LF card of PUDC			
ASSISTANCE BEING AWAILED for SAME "PURPOSE" from OTHER SOURCES इस उद्देश्य के हेतु कोई अन्य सहायता किसी अन्य स्रोत से लिया गया हो?				
Sr. No. क्रम संख्या	NAME of OTHER SOURCE अन्य स्रोत का नाम		AMOUNT of ASSISTANCE BEING AVAILED ली गई सहायता राशि	
①	DBCS		2000/-	

DECLARATION by APPLICANT: आवेदक द्वारा घोषणा करते हुए:

- I hereby confirm that all details in this Form are True to the best of my knowledge. Any false statement will render my Application & ongoing assistance, if any, liable for rejection/cancellation.
- I solemnly confirm that assistance, if received from Koshika Foundation, will be used only for the "purpose", as stated in this Form, for which such assistance was requested by me.
- I hereby confirm that I have not & will not in future, avail of reimbursement, in part or in full, from any other source/employer/insurance company, of the amount for which this assistance is requested.

1) मैं सोचता करता हूँ कि इस प्राप्ति में दिये गये सभी विवरण येरी बायकी के अनुसार सच्च रूप सही है। यदि कोई विवरण एवं कालय असत्य पाया जाता है तो येरी यात्रापत्र नियम को जा सकती है।

2) येरी द्वारा ये यात्रापत्र परि "कांसिका यात्रानंदेश", से भी जा सकती है, उसका उपयोग उभी उद्देश को यूटी के तिसों किलो तक पायेगा, जो इस प्राप्ति में भाग गया है।

3) मैं परि जानता हूँ कि यात्रा परायात्रा है यह प्राप्ति को जा सकता है, उम् तारी या अलिंग या यात्रा किसी भी चारोंनियोंलाल/बीम कम्पनी से न ले सकता है और न ही यात्रियां में सही।

AGREEMENT by APPLICANT (अर्पण द्वारा)

1) By affixing my signature or thumb impression on this Form, I (Applicant) hereby agree & authorise Koshika Foundation and it's Trustees to use/publish/put-up/reproduce my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, through any medium, including but not limited to verbal, print, electronic, for soliciting donations for Koshika Foundation and/or disseminating information about it's activities/achievements. Such use of my photo & details can be made by Koshika Foundation before or after my treatment or fulfillment of the "purpose" for which assistance is being requested.

2) I (Applicant) further agree that any such use of my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, will not automatically entitle me for receiving or continuing the said assistance. The decision for granting and/or continuing the assistance will rest solely with the Trustees of Knabika Foundation, and their decision in this regard will be final and acceptable to me.

1) इस प्रणाली पर अपने हमसाहब या अपनी कोई जाप लगाकर, मैं (अलेक्ट) अपनी सहायती की पुष्टि करता हूँ एवं एवं "कॉलिंग कार्डइंट्रेन और उसके नामों" को अधिकृत करता हूँ कि ये तो यह, यह, फोटो और जो विषयता इस प्रकार में खोली गी, तभी "कॉलिंग" एवं नामों, दार, वरचनाएँ दूसरे उद्देश्य में युद्धी गतिविधियों और उपलब्धियों के लिये किसी भी प्रकार वापरण में उपयोग करने के लिए अधिकृत है। मैं प्रपत्र का विषयता में इसका के पहले जा जाएं कि वह में करने के लिए "कॉलिंगकार्डइंट्रेन" व नामों अधिकृत है।

2) मैं (वारेंटक) इस बात में सहमत हूँ कि ये नाम, चरा, फोटो और विवरण जो कि सहायता के उद्देश्य से प्राप्ति हैं पूरी तरह सहायता का इकानुग्रह वही बनता है। इस सम्बन्ध में "कोहिका" प्रश्नम उपरके लियार्डिस का नियम अवैध और बाध्यकारी होता।

APPLICANT'S SIGNATURE OR LEFT THUMB IMPRESSION:

प्राप्ति विभाग के अधीन है।



AGREEMENT by HOSPITAL (印紙或簽名)

By affixing hereunder, signature of our Authorised Signatory for recommending this case/patient for financial assistance from Koshika Foundation, we (hereinafter) hereby affirm & accept following:

1) that we neither are presently nor will in future avail of financial assistance from another NGO or any other source, for the same patient/case, as we are requesting to get from Koshika Foundation, to the extent that such assistance is granted by Koshika Foundation. If the requested assistance is not granted

by Koshika Foundation, in part or in full, then the Hospital reserves its right to make up the shortfall from another NGO or any other source. The confirmation essentially states that the Hospital will not avail any duplicate assistance for the same patient/case from any other NGO or any other source.

2) The assistance from Koshika Foundation is only financial in nature. The choice of the treatment/procedure advised/conducted by the Hospital on the patient, is based on the arrangement between the patient & the Hospital, and is in no way influenced by Koshika Foundation. Hence, the Hospital will assume sole & complete responsibility of the treatment & it's outcome & safety of the patient, and Koshika Foundation will have no role or responsibility in the matter.

इसके अधिकार वस्त्राभूती की ओर से यापन/प्रयोग के "विशिष्ट फारम्सेसन" से विविध लाभावला होते जिसका विवर की जाती है, जिसे हम (हमारा) निम प्रकार में याप्त बतायेगा।

1) यह कि न हो कामन और न ही व्यक्तिय में विविध सहायता किसी भी साकारी संस्थान या विद्यार्थी अव्य योग से उक्त एमटी/मास्टर्स में लीज़ी गयी हो जाए है, जैसे कि इनमें "कॉलेजिक फाइनेंसिंग" से विशेषज्ञतावाली उक्त को सम्बद्ध हो जाए। यहाँ विविध अधिकारी/सकल हेतु बननु चाही किया जाता है और असाधारण किसी अन्य गैर सरकारी संस्थान या किसी अन्य सम्पादन से सहायता लेने का अधिकार नहीं दियता है। इस पूर्ण में मास्टर्स काल हो जाता है कि असमानता द्वितीय मरण उक्त एमटी/मास्टर्स में हो जाएगी।

२. "कोरिंथियां पाठावन्देशन" में लोग गई सहायता कीवाल चिन्हित इकूलि की है। ऐसी पर इमण्टल द्वारा एक गई सहायता के किसी वर्ष उपचार/प्रक्रिया का चुनाव योगी एवं हस्पताल के बीच या चिकित्सा है और "कोरिंथियां पाठावन्देशन" द्वारा किसी प्रकार का सोरों दबाव नहीं है। इसलिये हस्पताल में योगी के इताप सुखा और अने जाने की छारी चिन्हेण्टी ऐसे एवं इमण्टल की दोस्ती और "कोरिंथि" की कार्य परिकल्पना किम्बेण्टी इस घटावने में रही होती।

*W. L. D.*

**RECOMMENDED FOR ACCEPTANCE**

स्वीकृति एव लिप्त गोपनी

[Mr. Isak Ingebrigtsen](#) (1871-1943)

### 第六章：土壤风化作用与成土过程

ANSWER KEYS

Institute for Diabetes & Eye Care  
(A unit of Shridhara Eye Care Trust)  
Mr. Thirumalai S. Kumar, Authorised Signatory

on behalf of Hospital

西漢書

<span style="font-size: 2em;">10/5/24</span> Date of Surgery अंतिम को तारीख	<b>Dr. Laxmi Dorennavar</b> <b>MBBS, MS, FPRS, FICO</b> <b>Consultant - Phaco &amp; Refractive</b> <small>(Name of Dr. &amp; Regn. No. with Stamp)</small> डॉक्टर का नाम व हस्ताक्षर व संख. नं.	Manager- Ophthalmic Institute for Diabetes & Eye Care <small>(A unit of Shrinidhi Eye Care Trust)</small> <small># (Name, Designation &amp; Stamp of Authorized Signatory on behalf of Hospital)</small> नाम व पद हस्ताक्षर अधिकृत अधिकारी
FOR INTERNAL USE of KOSHIKA FOUNDATION      अन्तरिक उपयोग हेतु		
SIGNATURE of TRUSTEE 1 नामी हस्ताक्षर । 	SIGNATURE of TRUSTEE 2 नामी हस्ताक्षर 2 	